ADHBHUT INFRASTRUCTURE

Registered Office: D-15, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Tel.: +91-11-45210051, E-mail : adhbhut.ind@rediffmail.com CIN : L51503DL1985PLC020195

Ref.No.: AIL/BSE/2021-22

LIMITED

Date: 12th February 2022

To,

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy, Towers Limited Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 539189

Subject: <u>Newspaper clippings of the published financial results for the 3rd quarter</u> and nine months ended on December 31, 2021.

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47(1) and (3) read with schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company hereby informs that Unaudited financial results in accordance with Regulation 33, for the 3rd quarter and nine months ended on December 31, 2021 of financial year 2021-22 have been published in Jansatta (Hindi) & Financial Express (English) Newspapers on February 12, 2022, the copies whereof are attached herewith for your records.

Copies of the Newspapers clippings are also available on the website of the Company i.e. <u>https://adhbhutinfra.in/investor.php</u> and on the website of the BSE i.e. <u>www.bseindia.com</u>.

Please take the same on your records.

Thanking you.

For Adhbhut Infrastructure Limited

ANUBHAV DHAM Digitally signed by ANUBHAV DHAM Date: 2022.02.12 19:17:12 +05'30'

Anubhav Dham Whole time Director DIN: 02656812

Encl. As above

FINANCIAL EXPRESS

BLHASHYAP

38

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED (L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025 **Ph:** 91-11-40500300 ; **Fax:** 91-11-40500333 Website: www.blkashyap.com, Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31⁵¹ DECEMBER, 2021

			STANDALONE					CONSOLIDATED				
SI.No.	PARTICULARS	Quarter ended		Nine mon	onths ended For the yea ended		Quarter ended		Nine months ended		For the year ended	
		31.12.2021 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total Income from operations	27,412.16	30,804.07	82,046.19	46,124.56	74,897.48	27,781.93	31,416.04	83,325.86	46,999.34	76,225.83	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,761.74	2,430.19	5,647.60	969.19	3,728.29	1,254.54	1,918.51	4,078.54	(136.07)	1,751.06	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,761.74	2,430.19	5,647.60	969.19	3,728.29	846.55	1,918.51	3,670.55	(833.59)	(68.58	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,303.44	1,762.60	4,126.68	626.91	247.64	580.19	1,353.27	2,554.77	(2,183.15)	(5,841.31	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,328.50	1,787.65	4,201.86	627.12	347.87	606.74	1,379.82	2,634.43	(2,184.25)	(5,735.10	
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year	~	76	~	-	50,564.37				-	35,674.26	
8	Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)											
	Basic:	0.58	0.78	1.83	0.28	0.11	0.26	0.60	1.13	(0.97)	(2.59)	
	Diluted :	0.58	0.78	1.83	0.28	0.11	0.26	0.60	1.13	(0.97)	(2.59	

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com). 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February, 2022.

For & on behalf of the Board of **B.L. Kashyap and Sons Limited** Sd/-

Vineet Kashyap **Managing Director** (DIN: 00038897)

ZBIRLA Martiki na di Fina da Cazifi **BIRLA TYRES LIMITED**

SY)

Regd. Office: 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001 Phone: 033 2262 4355 / 57 /58 | Fax: 033 2262 4359 Email: corporate@birlatyre.com | Website : www.birlatyre.com

CIN: L25209WB2018PLC228915

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 ₹/Crores

SI. Na	Particulars	Current three months ended 31/12/2021 (Unaudited	Preceeding three months ended 30/09/2021 (Unaudited)	Corresponding three months ended in the previous year 31/12/2020 (Unaudited)	Current nine month ended 31/12/2021 (Unaudited	Corresponding nine months ended in previous year 31/12/2020 (Unaudited)	Previous year ended 31/03/2021 (Audited)
Т	lotal Income from Operations	2.65	10.34	47.39	16.91	116.58	153.10
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(105.76)	(44.84)	(76.08)	(210.72)	(237.57)	(287.63)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(105.76)	(44.84)	(76.08)	(210.72)	(237.57)	(287.63)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(104.79)	(43.88)	(76.66)	(207.83)	(239.31)	(283.78)
5	Equity Share Capital	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59
6 7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)					-	(709.44)
	a. Basic: (₹)	(7.42)	(3.14)	(5.34)	(14.78)	(16.66)	(20.17)
	b. Diluted: (₹)	(7.42)	(3.14)	(5.34)	(14.78)	(16.66)	(20.17)

a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website at www.birlatyre.com

b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at their Meetings held on 11th February, 2022.

	By Order of the Board
Dated :- 11 th February, 2022	Uma Shankar Asopa
Place :- Kolkata	Director

Place: New Delhi Dated: 11th February, 2022

WE BUILD YOUR WORLD



Place: Jaipur

Date: 11.02.2022

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED

Corporate/ Regd. Office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur (Raj.) Phone: 0141-2742557, 2742266, Fax: 0141-2742472 • CIN: L85110RJ1989PLC005206 E-Mail: sharmaeastindia@gmail.com • Website: www.jaipurkospital.co.in

LUMAX INDUSTRIES LIMITED LUMAX Regd. Office : 2st Floor, Harbans Shawan-B, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046 DK JAIN Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Tel: +91 11 49657832 GROUP Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L748990L1981PLC012804

EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 315T DECEMBER 2021

Statem	ent of Un-audited Financial Re	sults for the Qua	rter and Ni	ne Month		st Decemb	
S.	Particulars	Quarter ending	Quarter ending	Quarter ending	Nine Months ending	Nine Months ending	Year Ended

N.	Particulars	ending 31.12.2021	ending 30.09.2021	ending 31.12.2020	ending 31.12.2021	ending 31.12.2020	Ended 31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
12	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	470.01	447.80	250.80	1,182.93	602.01	1096.34
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	14.39	27.56	1.80	54.03	(16.50)	83.65
4	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	14.39	27.56	1.80	54.03	(16.50)	83.65
5	(after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	10.65	17.25	1.80	39.98	(16.50)	63.72
6 7	and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	10.65 328.38	17.25 328.38	1.80 328.38	39.98 328.38	(16.50) 328.38	63.72 328.38
	1. Basic: 2. Diluted:	0.32 0.32	0.53 0.53	0.05 0.05	1.22	-	1.94 1.94

Notes: (1) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11.02.2022. The Statutory Auditor of the company has carried out the Limited Review of the Financial Results for the guarter and Nine Months ended 31.12.2021, as required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ half Yearly Financial Results are available on the Company website www.jaipurhospital.co.in as well as on the Stock Exchange website www.bseindia.com. (3) The figure of previous period/year have been re-grouped/rearranged and/or recast wherever found necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

Shallendra Kumar Sharma (Managing Director) DIN: 00432070

SAMTEX FASHIONS LIMITED

(Runner in Lec)

Regd. Office & Works: Khasra No 62, D 1/3 Industrial Area, Rajarampur, Sikadrabad, Bulandshahr UP- 203205 IN CIN: L17112UP1993PLC022479, Email: samtex.compliance@gmail.com, Website: samtexfashions.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2021

									(Rs. In Lakh	is, except p	er share data)
				Standalon	e			0	onsolidate	жd	
31		Quarter Ended		Year to date Ye		Year ended	Quarte	r Ended	Year to date		Year ended
No	• Particulars				31.12.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited		31.12.2020 Unaudited			
1	Total Income From Operations (net)	0.14	0	0.14	0.09	0.6	8.45	0	8.47	7.09	13.55
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(17.95)	(19.08)	(57.19)	(55.84)	(78.30)	(173.28)	(226.02)	(541.13)	(657.49)	(803.88)
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(17.95)	(19.08)	(67.19)	(55.84)	(78.30)	(173.28)	(226.02)	(541.13)	(657.49)	(603.88)
4	Equity Share Capital	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	149D.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) Basic	(0.02)	(0.03)	(0.08)	(0.07)	(0.10)	(0.23)	(0.29)	(0.72)	(0.88)	(1.08)
7	Earnings Per Share (before extraordinary Items) Diluted	(0.02)	(0.03)	(0.08)	(0.07)	(0.10)	(0.23)	(0.29)	(0.72)	(0.88)	(1.08)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the Quaterty / Annual Results are available on the Stock exchange websites and Company website www.samtexfashions.com For Samtex Fashions Limited

Place : Delhi Date : 11.02.2022

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

[CIN: L51503DL1985PLC020195] Regd. Office: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1, New Delhi - 110048 Tel: +91-0124-243326.242220 | E-mail id: adhbhut.ind@rediffmail.com Website: https://adhbhutinfra.in/investor.php

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2021.

(₹ in lakhs unless other					
Particulars	Quarter Ended 31 December 2021 (Un-oudited)	Nine months ended 31 December 2021 (Un-audited)	Quarter Ended 31 December 2020 (Un-audited)		
Total Revenue from operations	43,528.60	120,194.19	44,624.24		
Net Profit from ordinary activities before tax (before exceptional item)	1,709.78	2,380.13	2,579.02		
Net Profit for the period before tax (after exceptional item)	961.54	1,744.25	3,526.68		
Net Profit for the period after tax	677.83	1,220.51	1,981.94		
Total comprehensive income	720.26	1,360.79	1,958.72		
Equity Share Capital	934.77	934.77	934.77		
Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing operations):					
Basic:	7.25	13.06	21.20		
Diluted:	7.25	13.06	21.20		

Notes:

Total

Net P

(belo

Net F

Net F

Key information on Standalone Financial Results is as follows:

(₹ in lakhs unless otherwise					
Particulars	Quarter Ended 31 December 2021 (Un-audited)	Nine months ended 31 December 2021 (Un-oudited)	Quarter Ended 31 December 2020 (Un-audited)		
I Revenue from operations	43,528.60	120,194.19	44,624.24		
Profit from ordinary activities before tax ore exceptional Item)	1,709.78	2,380.13	2,579.02		
Profit for the period before tax (after exceptional Item)	674.67	1,345.02	2,579.02		
Profit for the period after tax	465.89	933.19	1,365.56		

2. During the guarter ended on 31 December 2021, the Company has introduced a Voluntary Separation Scheme (VSS) and the Company has recorded a provision of ₹ 1,035.11 lakhs for employees who have accepted to be part of VSS as exceptional Item in the consolidated financial results.

3. The above results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11 February 2022. The unaudited results for the current guarter and nine months ended have been reviewed by the Statutory Auditor of the Company.

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021. filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021, are available on the Stock Exchange websites i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.lumaxworld.in/lumaxindustries)

For and on behalf of the Board of Directors of Lumox Industries Limited

(₹ in Lakhs except per equity share capital data)

Deepak Jain **Chairman & Managing Director** DIN: 00004972

Place : New Delhi Date : 11 February 2022



Date : 11th Fehruary 2022

Place: NEW DELHI

Sd/-

Atul Mittal

Chairman & Managing Director

SHYAM TELECOM LIMITED

CIN NO.: L32202RJ1992PLC017750

REGD. OFFICE : SHYAM HOUSE, 3, AMRAPALI CIRCLE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR-302021, RAJASTHAN, INDIA

Website : www.shyamtelecom.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December'2021

			Quarter Ende	d	Nine Mor	ths Ended	Year Ended
SI No.	Particulars	31/12/2021 (Un-audited)	30/09/2021 (Un-audited)	31/12/2020 (Un-audited)	31/12/2021 (Un-audited)	31/12/2020 (Un-audited)	31/03/2021 (Audited)
2	Total Income from operations Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items	4.80		2.00	4.80	6.00	6.50
5.	and tax Net Profit/ (Loss) for the period (before tax,	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(26.20)
1.	exceptional and/or extraordinary items) Net Profit/ Loss for the period before tax	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(26.20)
	(after exceptional and/or extraordinary items)	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
i	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional &/or extraordinary items)	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
1	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after			10.000			
,	tax) & other Comprehensive Income (after tax)) Paid-up Equity Share Capital	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
	(Face Value of Rs. 10/- each) Reserves (excluding Revalution Reserve) as	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	shows in the Audited Balance Sheet of the pervious year		-				(527.25)
	Earnings per Share (Face Value of Re 10/- each) for continuing operations)						
	(a) Basic (b) Difuted	(0.04) (0.04)	(0.13) (0.13)	(0.06) (0.06)	(0.23) (0.23)	(0.18) (0.18)	(3.54) (3.54)

1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 11th February, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11th February, 2022.

2. The Statutory Auditor of the Company have been carried out limited review of the said Financial Results for the guarter and nine months ended on December 31, 2021 in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015

3. The Financial Results have been prepared in accordance with the principal and procedures of Indian Accounting Standard ("IND AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013.

As the Company has only one operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segments is not applicable

5. The management has considered the possible impact of disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as on 31st December 2021. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired. The company will continue to monitor the future economic conditions and its consequent impact on the business operations, given the nature of the pandemic

Previous period's figures have been re-grouped /re-classified to render them comparable with the ligures of the current period.

7. The Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 2021 are available on the website of the Company https://adhbhutinfra.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com

For Adhbhut Infrastructure Limited Sd/-

ANUBHAV DHAM (Whole Time Director)

(DIN: 02656812)

Date: 11.02.2022 Place: New Delhi





S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Nine Months Ended	Corresponding Quarter Ended	Year Ended	
		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020	31/03/2021	
1.	Total Income	1.49	6.59	41.30	309.16	
2.	Net Profit /(Loss) for the period before tax and Exceptional Items	(47.85)	(182.29)	(10.50)	(34.41)	
3.	Net Profit /(Loss) for the period before tax and after Exceptional items	(47.85)	(182.90)	(10.50)	1.87	
4.	Net Profit /(Loss) for the period after tax and Exceptional Items	(48.66)	(182.94)	(10.92)	1.87	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period	(46.85)	(177.84)	(11.23)	69.50	
	(after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]					
6.	Equity Share Capital	1,127.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves)	•		-	-	
8.	Earning Per Share (EPS)of face value of Rs. 10/- each					
	(a) Basic	(0.42)	(1.58)	(0.10)	0.62	
	(b) Diluted	(0.42)	(1.58)	(0.10)	0.62	

Note : The above is an extract of the detailed format of Nine Months Un-audited Financial Results with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.shyamtelecom.com)





ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

[CIN: L51503DL1985PLC020195] Regd. Office: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1, New Delhi - 110048 Tel: +91-0124-243326.242220 | E-mail id: adhbhut.ind@rediffmail.com Website: https://adhbhutinfra.in/investor.php

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2021

			Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
Si No.	Particulars	31/12/2021 (Un-audited)	30/09/2021 (Un-audited)	31/12/2020 (Un-audited)	31/12/2021 (Un-audited)	31/12/2020 (Un-audited)	31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from operations Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptional items	4.80		2.00	4.80	6.00	6.50
3.	and tax Net Profit/ (Loss) for the period (before tax.	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(26.20)
4	exceptional and/or extraordinary items) Net Profit/ Loss for the period before tax	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(26.20)
	(after exceptional and/or extraordinary items)	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
į.,	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional &/or extraordinary items)	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
i.,	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after	14 000	(12 66)	(8 80)	105 251	(10.02)	(388 60)
7.	tax) & other Comprehensive Income (after tax)) Paid-up Equity Share Capital	(4.62)	(13.86)	(6.89)	(25.35)	(19.93)	(388.90)
š.,	(Face Value of Rs. 10/- each) Reserves (excluding Revaiution Reserve) as shows in the Audited Balance Sheet of	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
9.	the pervious year	-	-	-	-	-	(527.25)
2-	Earnings per Share (Face Value of Re 10/- each) for continuing operations)				6.000		3.76
	(a) Basic (b) Diluted	(0.04) (0.04)	(0.13) (0.13)	(0.06) (0.06)	(0.23) (0.23)	(0.18) (0.18)	(3.54) (3.54)

Note:

1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 11th February, 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11th February, 2022.

2. The Statutory Auditor of the Company have been carried out limited review of the said Financial Results for the guarter and nine months ended on December 31, 2021 in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015

The Financial Results have been prepared in accordance with the principal and procedures of Indian Accounting Standard ("IND AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013. As the Company has only one operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segments is not applicable.

The management has considered the possible impact of disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as on 31st December 2021. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired. The company will continue to monitor the future economic conditions and its consequent impact on the business operations, given the nature of the pandemic.

Previous period's figures have been re-grouped /re-classified to render them comparable with the figures of the current period.

The Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended December 2021 are available on the website of the Company https://adhbhutinfra.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com

For Adhbhut Infrastructure Limited Sd/-

Date: 11.02.2022	ANUBHAV DHAM (Whole Time Director)
Place: New Delhi	(DIN: 02656812)

		बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड		
	पंजीकृत कार्यालय: शाप न॰ 1, प्र	थम मंजिल. सीडव्लू 155, संजय गान्धी ट्रांसपोर्ट नगर. दिल्ली- 110	042	
	CIN: L65923DL1982PLC290287, ई—मेल: bazelinter	national@gmail.com, दूरभाष: 011-69999159, वेबसाइट: www.b	azelinternationalltd.com	
	31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त ति	निमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित उद्वरित एकीकृत वित्तीय परि	रेणाम	
				(रू० लाखों में)
क.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नोमाही	समाप्त वार्षिक
सं०		(अन अंकेक्षित)	(अनअं केक्षित)	(अंकेक्षित)

आस्ति वसूली शाखा, 26/28–डी, यूमियन मैक 🚺 Union Bank कर्नोट प्लेस, नई दिल्ली—110001, (कार्यस्थल : एम–35, प्रथम तला, Anglesa Experience कर्नोट प्लेस, नई दिल्ली–110001)

परिशिष्ट IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभत्तिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अर्थोंन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसित वसुली शाखा, 28/28-डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-36, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई विल्ली-110001) का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्णदार मैसर्स हैंखेक्राफ्ट नेशन, पार्टनर (श्रीमती सर्नदा चौधरी, श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौलरी और अीमती आलेखा घोष) और पाएंटर (ओं अगिय कुमार चौलरी) को एक मांग सूचना दिनांक 15.12.2018 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 17,08,39,655.00 (क. सन्नह करोड़ बाव साख उनवालीस हजार छः स्वै पच्चपन मात्र) दिनांक 30.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज इत्यादि संहित उक्त रायना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा क्या था।

उधारकर्ता / गाएंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथ्या सर्वसाधारण को सुथित किया जाता है कि अधोहस्तक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पहित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 10.02.2022 को ले लिया है

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **युनियन बैंक ऑफ** इंडिया, आस्ति वसली शाखा के प्रमार वास्ते चपरोक्त राशि और मविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अक्षीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

1. दुकान ने. 1027–यूजी–112, ऊपरी भूतल, अंसल पालन कॉर्पोरेट प्लाजा, गुडगाँव में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुनंदा चौधरी और श्रीमती श्रीकपा मित्रा चौधरी में स्थित, क्षेत्रफल 382 वर्ग फीट, पालम विहार, गाँव चाउमा एतरपुरी सराय अलवर्दी गुडुगांव तहसील और जिला गुडुगांव हरियाणा में स्थित, चौडदी : पुरब में – प्रवेश, पश्चिम में – दुकान नं, युजी 150, उत्तर में – दुकान नं. यूजी 111, दक्षिण में – दुकान नं. यूजी 113

2. वुकान ने. 1027-वूजी-140, ऊपरी मुतल, अंसल पालम कॉर्पोरेट प्लाजा, गुडगाँव में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सनंदा चौधरी और श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी में रिवत, क्षेत्रफल 587 वर्ग फीट, पालम विहार, गाँव चाउमा छतरपुरी सराय अलवर्दी युद्धगांव तहसील और जिला गुढ़गांव इरियाणा में स्थित, चौहदी : पुरब में – दुकान नं. युजी 111, पहिचम में – दुकान नं. युजी 139, उत्तर में – प्रवेश, दक्षिण में – सीढियां

3. दुकान नं. 1027—यूजी—162, ऊपरी मूतल, अंसल पालम कॉर्पोरेट प्लाज़ा, गुडगाँव में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुनेदा चौधरी और श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी में स्थित, क्षेत्रफल 681 वर्ग फीट, पालम विहार, गौंव चाउमा एतरपुरी सराय अलवर्दी गुड़गांव तहसील और जिला गुड़गांव **हरियाणा में स्थित,** यौहही : पुरब में – प्रवेश, पश्चिम में – दकान नं, युजी 130, उत्तर में – दकान न्, यूजी १६३, दक्षिण में — दुकान ने, यूजी १६१

4. दुकान नं, 1027—यूजी—160, ऊपरी भूतल, अंसल पालम कॉर्पोरेट प्लाज़ा, गुडगौंव में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुनंदा चौधरी और श्रीमती श्रीकपा मित्रा चौधरी में स्थित, क्षेत्रफल 553 वर्ग फीट, पालम विहार, गौंव चाउमा छत्तरपुरी सराय अलवर्दी गुडगांव तहसील और जिला गुडगांव **हरियाणः में स्थित,** चौडदी : पूरब में – प्रवेश, पश्चिम में – दुकान नं. यूजी 128, उत्तर में – दुकान नं. यूजी १६१, दक्षिण में -- दुकान नं. यूजी १५९

दिनांक: 10.02.2022, स्थान : दिस्सी प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India(Liquidation Process) Regulations, 2016)

COR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

PUBLIC NOTICE

We are a SEBI registered Depository Participant (DP) with SEBI registration number IN-DP-288-2016 and DP ID 72200. We would like to inform all Beneficiary Owners (BO) who have opened and maintained their demat account with our DP ID 72200 that we have decided to shut down our Business Operations w.e.f. 8th of February, 2022. Any BO who has any query / grievance for resolution should contact us latest by 28" February, 2022 on compliance@skunggroup.com

For SKUNG Tradelink Limited Place : Kampur Date : 12 February 2022 Director

Vhilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"IMPORTANT

सार्वजनिक सूचना

5d/

मैसर्स मुद्रा फाइनैंस लिमिटेड ("कम्पनी") पंजीकृत कार्यालय जी–12 / ए. प्रथम तल, होज खास, नई दिल्ली–110016 त कापोरेट कार्यालय विपुल टेक स्क्वायर, गोल्फ कार्स रोड, सेक्टर–43, गुरुग्राम –12009, हरियाणा ने विपुल गार्डन्स, धारुहेड हरियाणा नामक परियोजना में आवासीय / वाणिज्यिक फलैटस का अनंतिम आबंटन, धरोहर राशि सह बुकिंग राशि के ऐव में तथा आबंटन के नियम एवं शतों वाले कम्पनी के आवेदन प्रपन्न पर हस्ताक्षर करने के पश्चात किया था। कम्पनी द्वारा अनुरक्षित रेकार्ड्स के अनुसार, निम्नलिखित आबंटियों ने अनंतिम आबंटन के नियमों के अनुसार अपने बकाया / किश्तों / ब्याज इत्यादि का भुगतान. अनेक अनुस्मारों / लिखित संचारों के बावजूद नहीं किया है और इस फलस्वरूप संदर्भित यूनिट(यूनिट्स) का अनंतिम आबटन रदद कर दिया गया ह।

प्रगः आपेदक का नान सं.	टापर	यूनिट	परा	एरिया (वर्ग फीट)
ां श्री अरयनी कुमार रार्मा श्री जवाहर लाल बक्शी	4	1102	कोठी नंबर 117, सेक्टर—12 ए, पंचकुला, हरियाणा	1240
2' श्री गुलशन लूथरा	2	1001	1046, सेक्टर—14, गुरूग्राम, हरियाणा	1512
उं श्री गुलशन लूथरा	3	602	ाण्यह, सेक्टर—14, गुरूग्राम, हरियाणा	1273
य श्री वीरेश कालरा श्रीमती रेणु कालरा	2	801	सी—88, रोड नंबर 40, येस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	1512
5 श्रीमती रेणु कालरा श्री वीरेश कालरा	5	303	सी—88, रोड नंबर 40, येस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	1240
ठी श्री इंदु राज	4	104	204, सुखदेव विहार, नई दिल्ली–110025	1371
1	1	- 1	कृते एवं हिते मुद्रा फाइ	हनैंस लिमिटे
तिथि = 11 फरवरी, 2022 स्थान = गुरूग्राम				हस्ता. / निदेश



कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के सम्पक अनुपालन में कम्पनी के सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रेषित पोस्टल बैलट नोटिस दिनांकित 28 जनवरी, 2022 के सिलसिले में। उपरोक्त पोस्टल बैलट नोटिस के प्वाईट I.(K) में कार्यसूची मद सं, 3 (व्यक्तिगत स्थापन आधार पर अधिमान आबंटन द्वारा अनिवार्य परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का निर्गमन) के व्याख्यात्मक विवरण में, अनुमानित तनुकरण असावधानीवश 0.396176 (शून्य दशमलव तीन नौ छह एक सात छह) के स्थान पर 0.456438 (शून्य दशमलव चार पोंच छह चार तीन आठ) वर्णित किया गया है। यह परिशिष्ट पोस्टल बैलेंट नोटिस दिनांकित 28 जनवरी, 2022 का अंगभूत अंश माना जाएगा।

यहां ऊपर वर्णित परिवर्तनों के सिवाय और उनको छोड़कर, उपरोक्त पोस्टल बैलट नोटिस में दिया गया सभी अन्य विवरण प्रक्रिया, नोट्स तथा ईं-वोटिंग इत्यादि सहित अपरिवर्तित रहेगा। पोस्टल बैलट नोटिस इस परिशिष्ट के साथ जोडकर पढा जाएगा। इस परिशिष्ट की प्रति तथा पोस्टल बैलट नोटिस कम्पनी की वेबसाइट www.herofincorp.com पर जगलका रोगा।

							. ,
		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
1	संचालन से कुल आय	28.90	30.10	22.12	89.01	66.01	84.44
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	9.36	11.11	11.70	33.94	43.19	(31.89)
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	9.36	11.11	11.70	33.94	43.19	(31.89)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	6.93	8.22	8.45	25.12	31.17	(33.82)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट 2)	•	(0.39)	8.45	-	31.17	(35.96)
6	प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50
7	रिजर्व (रीवैलुवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया						1273.04
8	प्रति शैयर आय (रू० 10/- प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने कि लिए)						
	मूल:	0.47	0.56	0.58	1.72	2.14	(2.32)
	तरल:	0.47	0.56	0.58	1.72	2.14	(2.32)
टिप्प 1.	णीः सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम	' न 33 के अर्न्तग	त 31 दिसम्बर,	2021 को उप	ारोक्त समाप्त	तिमाही एवं नौग	नाही के उद्धरित

अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया।

2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके 11 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।

3. पिछली तिमाही/वार्षिक अवधि के आकड़े जहाँ भी आवश्यक थे, पूर्नगठित/पूनः वर्गीकृत किए गये हैं।

4. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई।

4. कम्पनी के उत्पादों के लिए केवल एक खण्ड है।

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 11.02.2022

बोर्ड की ओर से कृते बेजल इन्टरप्राईजेज लिमिटेख हस्ता०/-पंकज डावर (प्रबन्ध निर्देशक) DIN: 06479649

On behall of Board of Directors California Software Company Limited

Mr. Mahalingam Vasudevan

Managing Director

Sd/-

Surjest Corr

खंड राजस्व

क) खंड-एनबीएफसी

(This is a Public Announcement for information purposes only and not for publication or distribution and is not an Offer Document)



CALIFORNIA SOFTWARE COMPANY LIMITED

Our Company was incorporated as "California Software Company Limited" under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu on February 06, 1992. Further, our company received certificate of commencement of business by the Registrar of Companies. Tamil Nadu on October 19, 1992.

Corporate Identification Number: L72300TN1992PLC022135:

Registered Office: Workflo, Greeta Towers, Industrial Estate, Perungudi, OMR Phase 1, Chennai – 600 096, Tamil Nadu, India Contact Person: Mr. Krishnamoorthy Venkatesan, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91- 94448 60882; Email-ID: investor@calsoftoroup.com: Website: www.calsof.com:

PROMOTER OF OUR COMPANY: DR. MAHALINGAM VASUDEVAN

ISSUE OF UP TO (+) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY EACH AT A PRICE OF ₹(+)/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF TI+)/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT NOT EXCEEDING T4,900.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [+] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [+] EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREMOLDERS (THE "ISSUE") AS ON THE RECORD DATE, THAT IS, [+]. THE ISSUE PRICE IS [+] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 95 OF THIS DRAFT LETTER OF OFFER.

This Public Announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72 (2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations") to state that California Software Company Limited is proposing subject to requisite approvals, market conditions, and other considerations, for an issue of Equity Shares on rights basis and has on Thursday, February 10, 2022 filed the Draft Letter of Offer dated February 10, 2022 ("DLoF") with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges"), the stock exchanges on which the Equity Shares of the Company are presently listed. Since the size of the Issue is less than ₹ 5,000 Lakhs, as per the SEBI (ICDR) Regulations, the DLoF has not been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall issue any observation on the DLoF.

Pursuant to Regulation 72 (2) of the SEBI (ICOR) Regulations, the DLoF is tiled and hosted on the website of the BSE at www.bseindia.com. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of the Shreni Shares Private Limited, the sole Lead Manager at www.shreni.in, and is open to public for comments, if any. All the members of the public are hereby invited to provide their copy of comments on the DLoF to our Company, and the Lead Manager with respect to disclosures made in the DLoF. at the respective addresses mentioned herein. All the comments must be received by our Company and the Lead Manager on or before 5:00 p.m. on Thursday, March 03, 2022, i.e. within 21 (Fwenty-One) days from the alorementioned date of filing of DLoF. This Public announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of the DLoF and the Issue of Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed that at the time of subscribing to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction and/or to its citizens. The offering to which the DLoF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement. Investment in equity and equity related securities involves a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLoF. Investors are advised to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page 18 of the DLoF before investing in the SSUE.

-		IT PARTICULARS	•	and the second second	D.	THE A PROPERTY	
7	NAME OF CORPORATE DEBTOR	DUGAL ASSOCIA	दिनांकः ११ फरव स्थान : नई दिल्ले				
the second s	Date of Incorporation of Corporate Debtor	26.03.1998			144		
	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered	Registrar of Con		าย์		र्व	
	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U26960DL1998	PTC092946			ए—1, सेक्टर सीअ	
	Address of the registered office & principal office (if any) of Corporate Debtor		ईमेलः 31 दिस				
	Date of closure of Insolvency Resolution Process		Order Pronounced on 12/01/2022 and Order received by Liquidator on 10/02/2022)				
	Liquidation commencement date in respect of corporate debtor	Order Pronounced (Order received by			1	<u>परिचालनों</u>	
	Name and registration number of the insolvency professional acting as Liquidator	Name: Pradeep Up Regn. No: IBBI/ IPA	adhyay -001/IP-P01415/	2018-19/12233	2	शुद्ध लाभ/ (कर अपवाद	
	Address and e-mail of the Liquidator, as registered with the Board	Address: I-4/6, S Rohini, Delhi-1100 E-mail : capuaind	089		3	असाधारण स शुद्ध लाभ/ (कर अपवाद	
	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Address: B-2/42, S Rohini, Delhi-11008	Sector-18, 99	200	4	असाधारण स शुद्ध लाभ/	
1.	Last date for submission of Claims	E-mail : pradeepup 12/03/2022	Jacelyayiddii1223	segmail.com		कर पश्चात् अथवा असाध	
5	The stakeholders of DUGAL ASSOCIA submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10					अन्य गहन त (कर पश्चात्) इक्विटी शेय	
T T T T Oal	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the p Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall att	electronic mean storby electronic tract penalties. Praceep ATES PRIVAT	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay FE LIMITED	6 7 8	अन्य गहन त (कर पश्चात्) इक्विटी शेय रिजर्व (ईवैल् जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) –	
2. T s r 3. T () 1. S	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the p Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall att	electronic mean storby electronic tract penalties. Praceep ATES PRIVAT	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay FE LIMITED	8	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय रिजवे (ईवैल जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव	
2. T s r (). T (). S Dat	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the p Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D te : 12.02.2022 Liquidator of D ice : Delhi Reg. h Support Reg. h	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at UGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 In सीमेन्ट वर्क्स लिमि तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सं 23DL1972PLC31743	electronic mean stor by electronic tract penalties. Praceep ATES PRIVAT //IP-P01415/20	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay FE LIMITED 18-19/12233	7 8 नो 20 सग ति	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय रेजवे (ईवैल् जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण नाप्त तिमाही / व माही / वार्षिक व ww.bseindia.	
alla	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the g Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D ce : Delhi Reg. N (पूर्व में जाल (पूर्व में जाल पंजी. कार्यालय: सलैक्ट सिटी वाक, छठा CIN: L659 31.12.2021 को समाप्त ग 1	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at UGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 In सीमेन्ट वर्क्स लिमि तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सं 23DL1972PLC31743	electronic mean stor by electronic tract penalties. Praceep ATES PRIVAT //IP-P01415/20	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay TE LIMITED 18-19/12233	7 8 नो 20 सग ति 2-	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय रिजवे (ईवैल जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण नाप्त तिमाही/व माही/वार्षिक व	
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the g Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D ice : Delhi Reg. N (पूर्व में जाल पंजी. कार्यालय: सलैक्ट सिटी वाक, छठा CIN: L659 31.12.2021 को समाप्त ग 1 मा विवरण t.	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 IN सीमेन्ट वर्क्स लिमिन तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सं 23DL1972PLC31743 तिमाही का अनंकेक्षित समाप्त 3 महीने 31.12.2021 अनंकेक्षित 51.26	the Liquidator electronic mean storby electronic ract penalties. Pracesp ATES PRIVAT //IP-P01415/20 पिट-प्र, साकेत, नई वित्तीय परिणाम 31.12.2020 पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अनंकेक्षित 286.46	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay TELIMITED 118-19/12233 (राशि लाखों में) तिथि तक वर्ष 31.12.2021 (अनंकेक्षित) 588.31	7 8 नो 20 सग ति 2-	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय जेसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण पाप्त तिमाही/व माही/वार्षिक व ww.bseindia. - उपरोक्त परिण	
े ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the p Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of D te : 12.02.2022 Liquidator of D te : Delhi Reg. N (पूर्व में जाल पंजी. कार्यालय: सलैक्ट सिटी वाक, छठा CIN:L659 31.12.2021 को समाप्त ग 1 विवरण	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 IT सीमेन्ट वर्क्स लिमि तल, ए-3, डिस्ट्रिक्ट सं 23DL1972PLC31743 तिमाही का अनंकेक्षित समाप्त 3 महीने 31.12.2021 अनंकेक्षित 51.26	the Liquidator electronic mean storby electronic fact penalties. Pracesp ATES PRIVAT //IP-P01415/20 पे/IP-P01415/20 केंटर, साकेत, नई वित्तीय परिणाम 31.12.2020 पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अनंकेक्षित	at the address s only, All other means. Sd/- Upadhyay TE LIMITED 18-19/12233 (राशि लाखों में तिथि तक वर्ष 31.12.2021 (अनेकेक्षित)	7 8 नो 20 सग ति 11	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय जेसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण पाप्त तिमाही/व माही/वार्षिक व ww.bseindia. - उपरोक्त परिण फरवरी, 2022 व	
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the g Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of C ree : Delhi Reg. h to : Delhi Reg. h ut fill anatient: सलैक्ट सिटी वाक, छठा CIN:L659 31.12.2021 को समाप्त 1 विवरण t. ut tutenent से कुल आय (शुद्ध) satiu के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एक असाधारण मदों से पूर्व) at स पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (का अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (का	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at PUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. INFO: IBBI/ IPA-D01 INFO: IBBI/ IPA-D01	electronic mean storby electronic raci penalties. Praceep ATES PRIVAT //IP-P01415/20 मेन्टर, साकेत, नई वित्तीय परिणाम 31.12.2020 पूर्ल वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीन अनंकेक्षित 286.46 70.19 70.19	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay TELIMITED 18-19/12233 (राशि लाखों में तिथि तक वर्ष 31.12.2021 (अनंकेक्षित) 588.31 113.19 113.19	7 8 नो 20 सग ति 11	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण पाप्त तिमाही ⁄ व माही ⁄ वार्षिक व ww.bseindia. - उपरोक्त परिण फरवरी, 2022 व	
े ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the g Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of C ree : Delhi Reg. h to : Delhi Reg. h	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at PUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 ID.: IBBI/ IPA-D01 ID.: IB	b the Liquidator electronic mean stor by electronic ract penalties. Pracesep ATES PRIVAT //IP-P01415/20 मेन्टर, साकेत, नई वित्तीय परिणाम 31.12.2020 पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीन अनंकेक्षित 286.46 70.19	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay TELIMITED 118-19/12233 (राशि लाखों में) तिथि तक वर्ष 31.12.2021 (अनकेक्षित) 588.31 113.19	7 8 नो 20 सग ति 11	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय रेजवे (ईवैल् जैसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण पाप्त तिमाही⁄व माही⁄वार्षिक व ww.bseindia. - उपरोक्त परिण फरवरी, 2022 व थानः गाजिया रनांकः फरवरी	
भा हुक स 1 2 3 4	submit their claims with proof on or b mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their creditors may submit the claims with the g Submission of false or misleading pro- te : 12.02.2022 Liquidator of C ice : Delhi Reg. N to : Delhi Reg. N CIN: L659 31.12.2021 को समाप्त 1 परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 31.12.2021 को समाप्त 1 परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एक असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (वा एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कार्या क्रे क्रिय खुद्ध लाभ/(हानि) कार्या क्रे लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कार्या क्रे लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	elore 12/03/2022 to claims with proof by proof in person, by po ofs of claim shall at DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-DO1 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 DUGAL ASSOCI. IO.: IBBI/ IPA-D01 ITAL IPA-D01 IPA-D01 ITAL IPA-D01 ITAL IPA-D01 IPA-D01 IPA-D01 IPA-D01 IPA-D01	electronic mean storby electronic raci penalties. Praceep ATES PRIVAT //IP-P01415/20 मेन्टर, साकेत, नई वित्तीय परिणाम 31.12.2020 पूर्ल वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीन अनंकेक्षित 286.46 70.19 70.19	at the address s only. All other means. Sd/- Upadhyay TELIMITED 18-19/12233 (राशि लाखों में तिथि तक वर्ष 31.12.2021 (अनंकेक्षित) 588.31 113.19 113.19	7 8 नो 20 सग ति 11	(कर पश्चात्) इक्विटी शेय जेसा कि पि बैलेंस शीट प्रति इक्विटी प्रत्येक) (जार लिए) – –मूलमूत –द्रव ट– 1– उपरोव 15 (''सूचीकरण पाप्त तिमाही/व भाही/वार्षिक व ww.bseindia. - उपरोक्त परिण फरवरी, 2022 व	

	हीरो f	फेनकॉर्प लिगि					
iक: 11 फरवरी, 2022			हस्ता./- शिवेंद्र समन				
नः नई दिल्ली	प्रमुख-अन्	नुपालन और व					
स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड ए—1, सेक्टर—17, कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद—201001 (यूपी) सीआईएनः L25209UP1970PL003320, फोनः 0120 2701472							
ईमेलः info@splindia.co.in, वेबसाईटः www.splinida.co.in 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही/नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाामों का सार							
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	समाप्त तिमाही				
विवरण	31.12.2021 अनंकेक्षित	<u>31.12.2021</u> अनंकेक्षित	<u>31.12.2020</u> अनंकेक्षित				
परिचालनों से कुल आय	3.93	23.57	2.97				
शुद्ध लाभ∕(हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा∕अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	-35.34	-100.99	-45.28				
शुद्ध लाम⁄(हानि) अवधि हेतु तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा⁄अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	-35.34	-100.99	-45.28				
शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	-25.49	-341.14	-32.12				
अवधि हेतु कुल योग गहन आय (अवधि हेतु लाभ⁄हानि शामिल करके तथा⁄ अथवा असाधारण सामग्री पश्चात् तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय	-25.49	-341.14	-32.12				
(कर पश्चात्) इक्विटी शेयर पूंजी	200.00	200.00	200.00				
इक्विटा रायर पूजा रिजवे (ईवैल्यूएशन रिजवे को छोड़कर)	390.00	390.00	390.00				
तिराप (इपल्यूएरान रिजय को ठाड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिखाया गया है	0.00	0.00	0.00				
प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये 1/– प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए) –							
—मूलमूत	-0.07	-0.87	-0.08				
—द्रव	-0.07	-0.87	-0.08				
— 1— उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायि	ात्व और प्रकटी	करण अपेक्षाएं)	विनियमावली				
5 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए प्त तिमाही ⁄ वार्षिक के विस्तृत अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। समाप्त ाही ⁄ वार्षिक के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट w.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.splindia.co.in पर भी उपल्ब्ध है। उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा करवरी, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया।							
ानः गाजियाबाद नांकः फरवरी 11, 2022		रेशी पोलिटेव	हस्ता / – ारूप, अध्यक्ष				
	π						
प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] रे रीप्रजेन्टेशन्स एंड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ							
संबंधित वि		** ***					
	ाजेन्टेशन्स एंड ट्रैव	ाल्स प्राईवेट लिमि	टड				
कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 18 मार्च							
वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक कम्पनी नेगमित/पंजीकत है	राजस्ट्रार, दिल्ली,	भारत, कम्पनी अधि	ग्रानयम, 1956 के				

तिथिः 11 फरवरी, 2022

स्थानः गुरुग्राम

For details on the share capital of our Company, please refer to the section titled "Capital Structure" beginning on page 40 of the DLoF.

and for details relating to the same, see the section tilled "Risk Factors" on page 18 of the DLoF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE				
SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Office No. 102, 1" Floor, Sea Lord CHS, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai – 400 092, Maharashtra, India Tel: 022 - 2808 8456 Email: shrenishares@gmail.com Iavestors Brievance E-mail: info@shreni.in Contact Person: Ms. Kritika Rupda Website: www.shrenl.in SEBI Registration Number: INM000012759	Integrated SERVICES PRIVATE LIMITED 2" Floor, Kences Towers, 1, Ramakrishna Street, North Usman Road T Nagar, Chennai – 600 017, Tamil Nadu, India Tel: 044 – 2814 0801/803; Fax: 044 – 2814 2479 Email: calsoft@integratedindia.in Investors Grievance E-mail: yuvraj@integratedindia.i Website: www.integratedindia.in Contact Person: Mr. S Yuvraj SEBI Registration Number; INR000000544				

	फ) खड-रनबार्फसा ख) खंड-रीअल इस्टेट	51.20	286.40	580.20	2.	कापारट ऋणधारक के निगमने का तिथि	18 माच, 2008
	ख) खड-राअल इस्टट ग) अनावंटित			8.11	3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारव	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, भारत, कम्पनी अधिनियम, 1956 वे
		51.26	286.46	588.31		निगमित/पंजीकृत है	अंतर्गत
	कुल घटाकरः अंतर खंड राजस्व	51.20	280,40	588.51			
	सकल राजस्व	51.26	286.46	588.31	4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक क	U63040DL2008PTC175533
	खंड परिणाम	- 1120	200110		_	लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	
_	खंड पारणाम क) खंड-एनबीएफसी	(31.39)	70.19	113.19	5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथ	ए-333, ए विंग, ∏रा तल, न्यू संब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली
	ख) खंड-रनजारगरता ख) खंड-रीअल इस्टेट	(31.39)	70.19	113.19		प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	110033
	खेर खड-राजरा ३२८८ ग) अनावंटित						
	ग⁄ जनावादन कर से पूर्व लाभ∕हानि	(31.39)	70.19	113.19	6.	कापारट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाली आर होने की तिथि	23 दिसम्बर, 2022 (आदेश 11.02.2022 को प्राप्त हुई)
	खंड परिसम्पत्तियाँ	(31.57)	,,				
	खंड पारसम्पात्तय। क) खंड-एनबीएफसी	17 454 14	10,000,00	17 454 14	7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21 जून, 2022
	क) खड-एनबाएफसा ख) खंड-रोअल इस्टेट	17,456.14	18,088.22 275.00	17,456.14 275.00	0	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण	न्ता. भी सचेज सामनी
	ख) खड-राजल ३स्टट ग) अनावंटित	275.00	275.00	275.00	0,		
							ै पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993/2020-2021/1318
	कुल परिसम्पत्तियाँ	17,731.14	18,363.22	17.731.14		कार्यरत है	
4	खंड देयताएँ				9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल क	्रंपंजी. पताः डी-44, दूसरा तल, नारायण विहार, नई दिल्ली-11002
	क) खंड-एनबीएफसी	2,095.73	2,424.25	2.095.73		पता एवं ईमेलः	ईमेलः rajeshramnani2407@gmail.com
	ख) खंड-रीअल इस्टेट	8	8	-	- 10		
	ग) अनावंटित			-	10	. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिर	
	कुल देयताएँ	2095.73	2,424.25	2,095.73		प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	माल/डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम-122002
टिप्पण							ईमेलः cirp.fore@gmail.com
ईस 4. क मत्राल तिमाई	त्तीय लेखा मानक (इंडएएस) 108 ''प्रचालन खंड'' के अनुसा टेट है। यनौ ने रेट्रोस्पेक्टिव पद्धति का उपयोग करते हुए कम्पनी (भारत य (एमसीए) द्वारा यथा अधिसचित 1 अप्रैल, 2019 से इंडएएर के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। 1 भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवरिश्	यि लेखा मानक) २ न 17 ''लीजेज) ३	संशोधन नियमावली, अपनाई है। इस मानव	2019 में कार्पोरेट कार्य		धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिंग प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्स प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) क) संबंधित प्रपत्र तथा	। लागू नहीं
			आ।अत कापट	.ल ।लामटड क ।लय हस्ता./-	14	· ·	क) www.ibbi.gov.in
				निमिष अरोड		ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	ય) લાગૂ નહા
स्थानः	दिल्ली			प्रबंध निदेशक	ਹਰ	तदहारा सचित किया जाता है कि राष्टीय कम्पर्न	विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन
तिथिः	10.02.2022			DIN: 07189849			ट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है
-				-			
							मिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10
					ৰ্বা	र्णेत पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास	25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दा
					জ	मा करें।	
					ਯ	र गांध्यल केहीरमें केवल इलेक्ट्रानिक पटति उ	से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सभ
							स हा त्रनाय के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
							माव्यमा स प्रमाण क साथ अपन दाय जमा कर सकत हु। । संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रातिनिषि
						8	-
							ाक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि
						पनी पसंद को दर्शाएं– लागू नहीं	
					दा	वे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने प	र दंडित किया जा सकता है।
							राजेश रमनान

51.26

286.46

ताव प्रॉफेशनल कर्ं पंजी. पताः डी-44, दूसरा तल, नारायण विहार, नई दिल्ली-110028 ईमेलः rajeshramnani2407@gmail.com य पत्राचार के लिये 83, नेशनल मीडिया सेन्टर, शंकर चौक, निकट एम्बिएंस त माल/डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम-122002 ईमेलः cirp.fore@gmail.com 25 फरवरी, 2022 धारा 21 की उप लागू नहीं 5 अंतर्गत, अंतरिम त लेया गया त प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं त्य प्रोय इन्सॉल्वेन्सी से तीन नाम) क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं त राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ यद्य किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्ट सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्ट सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि ष राजेश रसनान भेती. पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993 2020-2021/13187		
त माल/डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम-122002 इंमेल: cirp.fore@gmail.com 25 फरवरी, 2022 घारा 21 की उप लागू नहीं 5 अंतर्गत, अंतरिम त प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं 5 ये गये इन्सॉल्वेन्सी से तीन नाम) वरण उपलब्ध है क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं 5 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स् संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 मे कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे कट्टानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ ावा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ वद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्ट सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि थ जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनार्न भेती. पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993		ईमेलः rajeshramnani2407@gmail.com
धारा 21 की उप लागू नहीं 5 अंतर्गत, अंतरिम 1 किया गया त प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं २ये गये इन्सॉल्वेन्सी से तीन नाम) वरण उपलब्ध है क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं 5 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स् संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 मे कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे कट्टानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ गवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। बद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि हे सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॅफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि हे सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॅफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि ते पा जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनार्न अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,		माल/डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम-122002
क अंतर्गत, अंतरिम त फ्रिया गया त प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं त्ये गये इन्सॉल्वेन्सी से तीन नाम) वरण उपलब्ध है क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं 5 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है 5 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 मे कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे क्ट्रानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ ावा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि थ राजेश रमनार्न पा जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनार्न अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,		25 फरवरी, 2022
त्ये गये इन्सॉल्वेन्स से तीन नाम) क) www.ibbi.gov.in ख) लागू नहीं क राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स् संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे क्ट्रानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रातिनिधि हे सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि हे प जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनार्न अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,	फ अंतर्गत, अंतरिम	
वरण उपलब्ध है ख) लागू नहीं 5 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23 दिसम्बर, 2021 को फॉरे रीप्रेजेन्टेशन्स संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे क्ट्रानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि ष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि प जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनान अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,	ज्ये गये इन्सॉल्वेर्न्स	
संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है वल्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में कशनल के पास 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे क्ट्रानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ विद्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। बद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रातिनिधि ष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि प्र जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। राजेश रमनान अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,	ावरण उपलब्ध है	
राजेश रमनार्न अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,	संदर्भ में कॉर्पोरेत वल्स प्राईवेट लिं फ्रानल के पास द क्ट्रानिक पद्धति रं बद्ध किसी वर्ग से बिद्ध किसी वर्ग से षि सं. 13 के सम	2 इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है मिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में 25 फरवरी, 2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे वे ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। अन्य सर्भ माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रातिनिधि क्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि
	ण जमा करन पर	राजेश रमनार्न अंतरिम प्रस्ताव कर्म पी. पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00993,

www.readwhere.com

Place: Chennai

Date: February 11, 2022